



Date: 19/10/2022

**BSE Limited**

Phiroze Jeejeebhoy Towers,  
Dalal Street,  
Mumbai 400 001

**National Stock Exchange of India Limited**

Exchange Plaza, Plot No. C/1,  
G Block, Bandra – Kurla  
Complex, Bandra (East),  
Mumbai 400 051

Scrip Code: **507779**

Trading Symbol: **KANPRPLA**

**Sub.: Submission of newspaper notice**

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 30(1) of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations 2015, please find enclosed herewith copies of newspaper advertisement published on 19/10/2022 pursuant to Regulations 47 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations 2015 in relation to the Meeting of Board of Directors of the Company to be held on **Friday, the 4<sup>th</sup> day of November, 2022 at 12:30 PM** to, *inter alia*, consider, approve and take on record Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter ended 30<sup>th</sup> September, 2022.

Kindly take this on record and oblige.

Thanking you,

Yours Faithfully,

For **KANPUR PLASTIPACK LTD.**

**(Ankur Srivastava)**

**Company Secretary**

**Encl: A/a**

D19-20 Panki Industrial Area, Kanpur - 208022, India  
tel.no: +91 (512) 2691113-116 | fax: +91 (512) 2691117  
email: [info@kanplas.com](mailto:info@kanplas.com) | web: [www.kanplas.com](http://www.kanplas.com)

Manufacturers & Exporters: HDPE/PP Circular  
Woven Fabrics, Sacks and FIBCS/Jumbo Bags  
Multifilament Yarn

CIN L25209UP09UP1971PLC003444  
ISO 9000:2008 ISO 22000 AIB BRC Certified




# Nissan lines up 3 SUVs for India entry



DEEPAK PATEL  
New Delhi, 18 October

## GROWTH IN UV\* SALES OF TOP 5 PLAYERS

Unit sales in April-September of



\*UV includes sport utility vehicle (SUV) and multi utility vehicle (MUV)  
Source: Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM)

Japanese carmaker Nissan on Tuesday showcased three sport utility vehicles (SUVs) — X-Trail, Juke and Qashqai — for the Indian market, announcing its big play in the UV segment that has shown the biggest growth during the last few years.

The company said it was testing X-Trail and Qashqai on the Indian roads. X-Trail will be the first to be launched, it said. In fact, this will be X-Trail's relaunch after eight years as its earlier generations were sold in India till 2014.

Currently, the company sells two SUVs — Kicks and Magnite — in India. However, it is not among the top five players in the segment that has seen the biggest growth during the last few years. (see table) Nissan said this month onwards, X-Trail and Qashqai are being put through their paces by its top engineers on the roads that surround the company's manufacturing plant in Chennai. "The Indian market has boundless potential, and it is critical that we introduce the best vehicle line-up to align with what modern Indian consumers want and need," said Frank Torres, President, Nissan India.

"Following the success of the Nissan Magnite in India, we plan to strengthen our

focus and leverage our expertise on high-quality SUVs that have become synonymous with our reputation," he mentioned. Juke, which was also showcased on Tuesday, is currently being evaluated for the Indian market.

India should consider taxing passenger vehicles based on emissions rather than length and engine size of vehicles, for a cleaner environment, Nissan India Managing Director Rakesh Srivastava told PTI. "We can have different tax slabs based on the level of emissions," Srivastava said, adding that the government has a different tax structure for below four meters, above four meters, in terms of length and in terms of fuel.

## KOTHARI PRODUCTS LIMITED

REGD. OFF: "PAN PARAG HOUSE", 24/19, THE MALL, KANPUR - 208 001  
PH.: (0512) - 2312171 - 74  
E-MAIL: rkgupta@kothariproductions.in, Website: http://www.kothariproductions.in  
CIN: L16008UP1983PLC006254

### NOTICE

Pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with The Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 as amended ("the Rules"), all shares in respect of which dividend has not been paid or claimed for last seven consecutive years or more are required to be transferred by Kothari Products Limited ("the Company") to the Demat Account opened in the name of Investor Education and Protection Fund Authority ("IEPF Authority") established by the Central Government pursuant to the provisions of Section 125 of the Act.

As per records of the Company, unclaimed/unpaid dividend for the Financial Year 2014-15 has been transferred on 14<sup>th</sup> October, 2022. The unclaimed/unpaid dividend for the 7 (Seven) consecutive years from the Financial Year 2015-16 up to the Dividend for the Financial Year 2018-19 is presently lying with the Company and the due date for transfer of shares relating to aforesaid dividend, remaining unpaid or unclaimed, to the Demat Account of the IEPF Authority is 15<sup>th</sup> March, 2023. The aforesaid shares shall be transferred within a period of thirty days from the due date.

**The concerned shareholders holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to the IEPF, may note that the Company would be issuing new share certificate(s) in lieu of the original share certificate(s) held by them for the purpose of transfer of shares to the IEPF as per the Rules and upon such issue, the original share certificate(s) which stand registered in their name will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable. Concerned shareholders holding shares in dematerialized form may note that the Company shall inform the depository by way of corporate action for transfer of their shares in favour of the Demat account of the IEPF and consequently their demat accounts will be debited and such shares shall be transferred to the Demat Account of the IEPF.**

The shareholders may further note that the details uploaded by the Company on its website shall be regarded and be deemed as adequate notice in respect of issue of new share certificate(s) by the Company for the purpose of transfer of shares to the IEPF pursuant to the Rules.

Individual communication in this regard have been sent to the concerned Shareholders. Detail of such shareholders along with their folio number/DP ID- Client ID is available on the website of the Company at [www.kothariproductions.in](http://www.kothariproductions.in) under "Investors" section. In case any shareholder(s) wishes to stop transfer of his/her shares to the Demat Account of the IEPF Authority, such shareholder(s) is requested to claim his aforesaid unpaid or unclaimed dividend at the earliest from the Company and latest by 31<sup>st</sup> January, 2023. In case no communication is received from the concerned shareholder(s) within the aforesaid time period the Company shall cause to transfer the relevant Dividend/Shares in the name of the IEPF/IEPF Authority pursuant to the provisions of the Act and the Rules.

Any person whose shares/unpaid dividend is transferred to the IEPF Authority may claim the shares/dividend from IEPF Authority, pursuant to the provisions of Section 124 and 125 of the Act and the Rules made thereunder by submitting an online application in Form IEPF-5 available on the website [www.iepf.gov.in](http://www.iepf.gov.in) with a copy to the Company. Shareholders are requested to go through the individual communication issued by the Company in this regard and also the provisions of Section 124 and 125 of the Act and the Rules.

The above information is also available on Company's website [www.kothariproductions.in](http://www.kothariproductions.in) and also on the websites of stock exchanges i.e. [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com).

FOR KOTHARI PRODUCTS LIMITED  
Sd/-  
(RAJ KUMAR GUPTA)  
CS & COMPLIANCE OFFICER  
FCS - 3281

DATE : 15<sup>TH</sup> OCTOBER, 2022  
PLACE: KANPUR

## KANPUR PLASTIPACK LTD

Regd. Office-D-19-20, Panki Industrial Area, Kanpur-208 022  
TEL: +91 (0512) 2691 113 - 6;  
Email: secretary@kanplas.com ;  
Web: www.kanplas.com

CIN: L25209UP1971PLC003444

### NOTICE

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, notice is hereby given, that a meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on **Friday, 4<sup>th</sup> November, 2022 at 12:30 PM** at A-1/A-2 Panki Industrial Area, Kanpur-208022 to, *inter-alia*, consider Standalone & Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter ended 30<sup>th</sup> September, 2022.

Place: Kanpur  
Date: 18.10.2022

For Kanpur Plastipack Limited  
Sd/-  
(Ankur Srivastava)  
Company Secretary

## APPOINTMENTS

Advertisement No. 113/2022  
Government of India  
Public Enterprises Selection Board  
invites applications for the post of  
**Chairman and Managing Director**  
in  
**NMDC Limited**  
Last date of receipt of applications in PESB is  
by 15.00 hours on 22<sup>nd</sup> December, 2022.

For details login to website  
<http://www.pesb.gov.in>

LOOKING FOR SHARP MINDS TO HELP INDIA SHINE

If India's growth entices you, join India EXIM Bank

India EXIM Bank is inviting young professionals from across the country to fill the vacancies for full-time posts of 41 Management Trainees and 4 Managers with experience. If you are passionate about learning and growing in a meritocratic environment that encourages growth, innovation, and excellence, and meet the eligibility criteria, apply online at <https://ibpsonline.ibps.in/iebtstep22/>

To be eligible you should be a citizen of India with an MBA in Finance / Banking or a Chartered Accountant.

Kindly note, no other means / mode of application will be accepted. Please ensure your eligibility before paying fees / submitting applications.

Website link opens: 14.10.2022

Last day for payment of application and payment of Examination fee: 04.11.2022



## TATA METALIKS LTD.

CIN : L27310WB1990PLC050000  
Registered Office : TATA CENTRE, 10th Floor, 43, J. L. Nehru Road, Kolkata - 700 071  
Website : [www.tatametalliks.com](http://www.tatametalliks.com), Email : [tmi@tatametalliks.co.in](mailto:tmi@tatametalliks.co.in)

### EXTRACT OF STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND SIX MONTHS ENDED ON SEPTEMBER 30, 2022 (Rs. in lakhs)

Sr. No	Particulars	3 months Ended 30.09.2022 Audited	3 months Ended 30.06.2022 Audited	3 months Ended 30.09.2021 Audited	6 months Ended 30.09.2022 Audited	6 months Ended 30.09.2021 Audited	Year Ended 31.03.2022 Audited
1.	Total Income from operations	87,698	66,637	64,484	154,335	124,781	274,553
2.	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	2,013	173	8,081	2,186	21,546	30,788
3.	Net Profit for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	2,013	173	8,081	2,186	21,546	33,871
4.	Net Profit for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,429	122	5,462	1,551	14,934	23,745
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive income (after tax)]	1,464	158	5,463	1,622	14,937	23,785
6.	Paid-up equity share capital (Face value Rs. 10/- per share)	3,158	3,158	3,158	3,158	3,158	3,158
7.	Other Equity	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	149,369
8.	Earnings per share (EPS) (of Rs 10/- each) for continuing and discontinued operations						
	# Basic [Face Value Rs. 10 each] (*not annualised)	4.52*	0.39*	17.30*	4.91*	47.29*	75.20
	# Diluted [Face Value Rs. 10 each] (*not annualised)	4.52*	0.39*	17.30*	4.91*	47.29*	75.20

- The above results were reviewed by the Audit Committee on October 17, 2022 and approved by the Board of Directors at its meeting held on October 17, 2022.
- The Board of Directors of the Company and Tata Steel Limited ("the Parent Company") approved the Scheme for Amalgamation of the Company into the Parent Company at their respective meetings held on September 22, 2022. The Board of Directors recommended exchange ratio of 79 fully paid-up equity shares of Rs. 1 each of the Parent Company for every 10 fully paid-up equity shares of Rs. 10 each held in the Company. The Company has submitted the scheme of amalgamation to Stock Exchanges on October 11, 2022. Further, the Board of Directors of the Company approved withdrawal of the Scheme of Amalgamation of the Company into Tata Steel Long Products Limited, owing to significant changes in underlying business conditions of both the companies resulting in dilution of the inherent benefits which were initially envisaged.
- Exceptional item represents profit on sale of land, at Redi, which was not in use pursuant to discontinued operation in earlier year.

For and on behalf of Board of Directors  
Sandeep Kumar  
Managing Director  
DIN: 02139274

Place : Kolkata  
Date : October 17, 2022

FORM RSC - 4 [Pursuant to Rule 3(3)]  
BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL,  
CHENNAI BENCH, CHENNAI  
COMPANY APPLICATION NO.: CP/108(CHE)/2022  
IN THE MATTER OF SECTION 66 OF THE COMPANIES ACT, 2013 AND  
IN THE MATTER OF MORGAN INDUSTRIES LIMITED  
MORGAN INDUSTRIES LIMITED, C-2, SIPCOT Industrial Complex,  
Cuddalore-607005 ..PETITIONER

PUBLICATION OF NOTICE

Notice is hereby taken that an Application was presented to the Honourable Tribunal at Chennai Bench on the 12<sup>th</sup> day of October, 2022 for confirming the Reduction of the Share Capital of the above company from Rs.15,00,00,000/- to Rs.1,50,00,000/-. The notices to individual creditors have been issued. The List of Creditors prepared on the 31<sup>st</sup> day of July, 2022 by the company is available at the Registered Office of the Company for inspection on all working days during 11 A.M. to 4 P.M. between Monday to Wednesday.

If any creditor of the company has any objection to the application or the details in the List of Creditors, the same may be sent (alongwith supporting documents) and details about his name and address and the name and address of his Authorised Representative, if any, to the undersigned at address given below within three months of date of this notice.

If no objection is received within the time stated above, entries in the List of Creditors will, in all the proceedings under the above Petition to reduce the share capital of the company, be treated as correct. It may also be noted that a hearing has been fixed for 18<sup>th</sup> day of January, 2023 on which the Tribunal shall hear the Application. In case any creditor intends to attend the hearing he should make a request along with his objections, if any.

A.M. Ilango, Counsel for Petitioner  
Suite No. 103, First Floor, Kaveri Complex, 96/104, Nungambakkam High Road, Nungambakkam, Chennai - 600034

Place: Chennai  
Date: 18.10.2022

The Singareni Collieries Company Limited  
(A Government Company)  
Regd. Office: KOTHAGUDEM - 507104, Telangana.

E-PROCUREMENT TENDER NOTICE

Tenders have been published for the following Services through e-procurement platform. For details, please visit <https://tender.telangana.gov.in> or - <https://www.sclmines.com>

NIT/Enquiry No. - Description/ Subject / Estimated Contract Value - Last date and time for Submission of bid (s)

CW/RD/e-38/2022-23 - Dismantling of damaged roof slabs and relaying of pre-painted sheets, arresting roof leakages, plastering, flooring and miscellaneous works etc., to houses of BC colony in Phase-II (Package-I) near Kistaram OC, Sathupalli, Kothagudem area, Khammam District, Telangana State - Rs.36,02,951/- 27.10.2022 - 4:30 P.M.

CW/RD/e-39/2022-23 - Dismantling of damaged roof slabs and relaying of pre-painted sheets, arresting roof leakages, plastering, flooring and miscellaneous works etc., to houses of NTR Nagar in Phase-II (Package-II) near JVR OC-II, Sathupalli, Kothagudem area, Khammam District, Telangana State - Rs.33,11,172/- 27.10.2022 - 4:30 P.M.

CW/RD/e-41/2022-23 - Dismantling of damaged roof slabs and relaying of pre-painted sheets, arresting roof leakages, plastering, flooring and miscellaneous works etc., to houses of Vengalrao Nagar in Phase-II (Package-I) near JVR OC-II, Sathupalli, Kothagudem area, Khammam District, Telangana State - Rs.33,54,594/- 27.10.2022 - 4:30 P.M.

CW/RD/e-42/2022-23 - Dismantling of damaged roof slabs and relaying of pre-painted sheets, arresting roof leakages, plastering, flooring and miscellaneous works etc., to houses of BC Colony in Phase-II (Package-II) near JVR OC-II, Sathupalli, Kothagudem area, Khammam District, Telangana State - Rs.31,64,932/- 27.10.2022 - 4:30 P.M.

CW/RD/e-43/2022-23 - Dismantling of damaged roof slabs and relaying of pre-painted sheets, arresting roof leakages, plastering, flooring and miscellaneous works etc., to houses of NTR Nagar in Phase-II (Package-II) near Kistaram OC, Sathupalli, Kothagudem area, Khammam District, Telangana State - Rs.32,59,362/- 27.10.2022 - 4:30 P.M.

CW/RD/e-44/2022-23 - Dismantling of damaged roof slabs and relaying of pre-painted sheets, arresting roof leakages, plastering, flooring and miscellaneous works etc., to houses of SC Colony in Phase-II (Package-I) near Kistaram OC, Sathupalli, Kothagudem area, Khammam District, Telangana State - Rs.29,56,847/- 27.10.2022 - 4:30 P.M.

CW/RD/e-45/2022-23 - Dismantling of damaged roof slabs and relaying of pre-painted sheets, arresting roof leakages, plastering, flooring and miscellaneous works etc., to houses of Vengalrao Nagar in Phase-II (Package-II) near JVR OC-II, Sathupalli, Kothagudem area, Khammam District, Telangana State - Rs.30,01,896/- 27.10.2022 - 4:30 P.M.

CW/RD/e-48/2022-23 - Dismantling of damaged roof slabs and relaying of pre-painted sheets, arresting roof leakages, plastering, flooring and miscellaneous works etc., to houses of SC colony in Phase-II (Package-II) near Kistaram OC, Sathupalli, Kothagudem area, Khammam District, Telangana State - Rs.30,01,692/- 27.10.2022 - 4:30 P.M.

CW/RD/e-49/2022-23 - Dismantling of damaged roof slabs and relaying of pre-painted sheets, arresting roof leakages, plastering, flooring and miscellaneous works etc., to houses of Vengalrao Nagar in Phase-II (Package-III) near JVR OC-II, Sathupalli, Kothagudem area, Khammam District, Telangana State - Rs.30,31,731/- 27.10.2022 - 4:30 P.M.

CW/RD/e-40/2022-23 - Dismantling of damaged roof slabs and relaying of pre-painted sheets, arresting roof leakages, plastering, flooring and miscellaneous works etc., to houses of SC Colony in Phase-II (Package-I) near Kistaram OC, Sathupalli, Kothagudem area, Khammam District, Telangana State - Rs.34,96,349/- 28.10.2022 - 4:30 P.M.

CW/RD/e-46/2022-23 - Dismantling of damaged roof slabs and relaying of pre-painted sheets, arresting roof leakages, plastering, flooring and miscellaneous works etc., to houses of BC Colony in Phase-II (Package-III) near Kistaram OC, Sathupalli, Kothagudem area, Khammam District, Telangana State (\*Invited under earmarked work-SC Community are eligible to participate) - Rs.30,13,113/- 28.10.2022 - 4:30 P.M.

General Manager, Kothagudem Area  
PR/2022-23/CVL/49 RO No: 819-PP/CL-AGENCY/ADVT/1/2022-23

#BSMorningShow

Infocus

Is the worst of inflation behind us?

Q&A

How did Meesho cash in on the festival season?

Market Insight

Should you buy stocks of jewellery retailers this Dhanteras?

5paisa.com presents

Business Standard MORNING SHOW

Mon - Fri | 8am

Get the answers in today's episode

Visit [mybs.in/MorningShow](http://mybs.in/MorningShow) or scan this code to watch.

bsindia bsindia business-standard.com








# Nissan lines up 3 SUVs for India entry



DEEPAK PATEL  
New Delhi, 18 October

## GROWTH IN UV\* SALES OF TOP 5 PLAYERS

Unit sales in April-September of



\*UV includes sport utility vehicle (SUV) and multi utility vehicle (MUV)  
Source: Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM)

Japanese carmaker Nissan on Tuesday showcased three sport utility vehicles (SUVs) — X-Trail, Juke and Qashqai — for the Indian market, announcing its big play in the UV segment that has shown the biggest growth during the last few years.

The company said it was testing X-Trail and Qashqai on the Indian roads. X-Trail will be the first to be launched, it said. In fact, this will be X-Trail's relaunch after eight years as its earlier generations were sold in India till 2014.

Currently, the company sells two SUVs — Kicks and Magnite — in India. However, it is not among the top five players in the segment that has seen the biggest growth during the last few years. (see table)

Nissan said this month onwards, X-Trail and Qashqai are being put through their paces by its top engineers on the roads that surround the company's manufacturing plant in Chennai. "The Indian market has boundless potential, and it is critical that we introduce the best vehicle line-up to align with what modern Indian consumers want and need," said Frank Torres, President, Nissan India.

"Following the success of the Nissan Magnite in India, we plan to strengthen our

focus and leverage our expertise on high-quality SUVs that have become synonymous with our reputation," he mentioned. Juke, which was also showcased on Tuesday, is currently being evaluated for the Indian market.

India should consider taxing passenger vehicles based on emissions rather than length and engine size of vehicles, for a cleaner environment, Nissan India Managing Director Rakesh Srivastava told PTI. "We can have different tax slabs based on the level of emissions," Srivastava said, adding that the government has a different tax structure for below four meters, above four meters, in terms of length and in terms of fuel.

## KOTHARI PRODUCTS LIMITED

REGD. OFF: "PAN PARAG HOUSE", 24/19, THE MALL, KANPUR - 208 001  
PH.: (0512) - 2312171 - 74  
E-MAIL: rkgupta@kothariproductions.in, Website: http://www.kothariproductions.in  
CIN: L16008UP1983PLC006254

### NOTICE

Pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with The Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 as amended ("the Rules"), all shares in respect of which dividend has not been paid or claimed for last seven consecutive years or more are required to be transferred by Kothari Products Limited ("the Company") to the Demat Account opened in the name of Investor Education and Protection Fund Authority ("IEPF Authority") established by the Central Government pursuant to the provisions of Section 125 of the Act.

As per records of the Company, unclaimed/unpaid dividend for the Financial Year 2014-15 has been transferred on 14<sup>th</sup> October, 2022. The unclaimed/unpaid dividend for the 7 (Seven) consecutive years from the Financial Year 2015-16 up to the Dividend for the Financial Year 2018-19 is presently lying with the Company and the due date for transfer of shares relating to aforesaid dividend, remaining unpaid or unclaimed, to the Demat Account of the IEPF Authority is 15<sup>th</sup> March, 2023. The aforesaid shares shall be transferred within a period of thirty days from the due date.

**The concerned shareholders holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to the IEPF, may note that the Company would be issuing new share certificate(s) in lieu of the original share certificate(s) held by them for the purpose of transfer of shares to the IEPF as per the Rules and upon such issue, the original share certificate(s) which stand registered in their name will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable. Concerned shareholders holding shares in dematerialized form may note that the Company shall inform the depository by way of corporate action for transfer of their shares in favour of the Demat account of the IEPF and consequently their demat accounts will be debited and such shares shall be transferred to the Demat Account of the IEPF.**

The shareholders may further note that the details uploaded by the Company on its website shall be regarded and be deemed as adequate notice in respect of issue of new share certificate(s) by the Company for the purpose of transfer of shares to the IEPF pursuant to the Rules.

Individual communication in this regard have been sent to the concerned Shareholders. Detail of such shareholders along with their folio number/DP ID- Client ID is available on the website of the Company at [www.kothariproductions.in](http://www.kothariproductions.in) under "Investors" section. In case any shareholder(s) wishes to stop transfer of his/her shares to the Demat Account of the IEPF Authority, such shareholder(s) is requested to claim his aforesaid unpaid or unclaimed dividend at the earliest from the Company and latest by 31<sup>st</sup> January, 2023. In case no communication is received from the concerned shareholder(s) within the aforesaid time period the Company shall cause to transfer the relevant Dividend/Shares in the name of the IEPF/IEPF Authority pursuant to the provisions of the Act and the Rules.

Any person whose shares/unpaid dividend is transferred to the IEPF Authority may claim the shares/dividend from IEPF Authority, pursuant to the provisions of Section 124 and 125 of the Act and the Rules made thereunder by submitting an online application in Form IEPF-5 available on the website [www.iepf.gov.in](http://www.iepf.gov.in) with a copy to the Company. Shareholders are requested to go through the individual communication issued by the Company in this regard and also the provisions of Section 124 and 125 of the Act and the Rules.

The above information is also available on Company's website [www.kothariproductions.in](http://www.kothariproductions.in) and also on the websites of stock exchanges i.e. [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com).

FOR KOTHARI PRODUCTS LIMITED  
Sd/-  
(RAJ KUMAR GUPTA)  
CS & COMPLIANCE OFFICER  
FCS - 3281

DATE : 15<sup>TH</sup> OCTOBER, 2022  
PLACE: KANPUR

Regd. Office-D-19-20, Panki Industrial Area, Kanpur-208 022  
TEL: +91 (0512) 2691 113 - 6;  
Email: secretary@kanplas.com ;  
Web: www.kanplas.com

### NOTICE

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, notice is hereby given, that a meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on **Friday, 4<sup>th</sup> November, 2022 at 12:30 PM** at A-1/A-2 Panki Industrial Area, Kanpur-208022 to, *inter-alia*, consider Standalone & Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter ended 30<sup>th</sup> September, 2022.

Place: Kanpur  
Date: 18.10.2022

For Kanpur Plastipack Limited  
Sd/-  
(Ankur Srivastava)  
Company Secretary

## APPOINTMENTS

Advertisement No. 113/2022  
Government of India  
Public Enterprises Selection Board  
invites applications for the post of  
**Chairman and Managing Director**  
in  
**NMDC Limited**  
Last date of receipt of applications in PESB is  
by 15.00 hours on **22<sup>nd</sup> December, 2022.**

For details login to website  
<http://www.pesb.gov.in>

LOOKING FOR SHARP MINDS TO HELP INDIA SHINE

If India's growth entices you, join India EXIM Bank

India EXIM Bank is inviting young professionals from across the country to fill the vacancies for full-time posts of 41 Management Trainees and 4 Managers with experience. If you are passionate about learning and growing in a meritocratic environment that encourages growth, innovation, and excellence, and meet the eligibility criteria, apply online at <https://ibpsonline.ibps.in/iebtstep22/>

To be eligible you should be a citizen of India with an MBA in Finance / Banking or a Chartered Accountant.

Kindly note, no other means / mode of application will be accepted. Please ensure your eligibility before paying fees / submitting applications.

Website link opens: 14.10.2022  
Last day for payment of application and payment of Examination fee: 04.11.2022



## TATA METALIKS LTD.

CIN : L27310WB1990PLC050000  
Registered Office : TATA CENTRE, 10th Floor, 43, J. L. Nehru Road, Kolkata - 700 071  
Website : [www.tatametalliks.com](http://www.tatametalliks.com), Email : [tmi@tatametalliks.co.in](mailto:tmi@tatametalliks.co.in)

### EXTRACT OF STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND SIX MONTHS ENDED ON SEPTEMBER 30, 2022 (Rs. in lakhs)

Sr. No	Particulars	3 months Ended 30.09.2022 Audited	3 months Ended 30.06.2022 Audited	3 months Ended 30.09.2021 Audited	6 months Ended 30.09.2022 Audited	6 months Ended 30.09.2021 Audited	Year Ended 31.03.2022 Audited
1.	Total Income from operations	87,698	66,637	64,484	154,335	124,781	274,553
2.	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	2,013	173	8,081	2,186	21,546	30,788
3.	Net Profit for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	2,013	173	8,081	2,186	21,546	33,871
4.	Net Profit for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,429	122	5,462	1,551	14,934	23,745
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive income (after tax)]	1,464	158	5,463	1,622	14,937	23,785
6.	Paid-up equity share capital (Face value Rs. 10/- per share)	3,158	3,158	3,158	3,158	3,158	3,158
7.	Other Equity	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	149,369
8.	Earnings per share (EPS) (of Rs 10/- each) for continuing and discontinued operations # Basic [Face Value Rs. 10 each] (*not annualised) # Diluted [Face Value Rs. 10 each] (*not annualised)	4.52*	0.39*	17.30*	4.91*	47.29*	75.20

- The above results were reviewed by the Audit Committee on October 17, 2022 and approved by the Board of Directors at its meeting held on October 17, 2022.
- The Board of Directors of the Company and Tata Steel Limited ("the Parent Company") approved the Scheme for Amalgamation of the Company into the Parent Company at their respective meetings held on September 22, 2022. The Board of Directors recommended exchange ratio of 79 fully paid-up equity shares of Rs. 1 each of the Parent Company for every 10 fully paid-up equity shares of Rs. 10 each held in the Company. The Company has submitted the scheme of amalgamation to Stock Exchanges on October 11, 2022. Further, the Board of Directors of the Company approved withdrawal of the Scheme of Amalgamation of the Company into Tata Steel Long Products Limited, owing to significant changes in underlying business conditions of both the companies resulting in dilution of the inherent benefits which were initially envisaged.
- Exceptional item represents profit on sale of land, at Redi, which was not in use pursuant to discontinued operation in earlier year.

For and on behalf of Board of Directors  
Sandeep Kumar  
Managing Director  
DIN: 02139274

Place : Kolkata  
Date : October 17, 2022

**FORM RSC - 4 [Pursuant to Rule 3(3)] BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL, CHENNAI BENCH, CHENNAI**  
COMPANY APPLICATION NO.: CP/108(CHE)/2022  
IN THE MATTER OF SECTION 66 OF THE COMPANIES ACT, 2013 AND IN THE MATTER OF MORGAN INDUSTRIES LIMITED  
MORGAN INDUSTRIES LIMITED, C-2, SIPCOT Industrial Complex, Cuddalore-607005 ..PETITIONER

**PUBLICATION OF NOTICE**

Notice is hereby taken that an Application was presented to the Honourable Tribunal at Chennai Bench on the 12<sup>th</sup> day of October, 2022 for confirming the Reduction of the Share Capital of the above company from Rs.15,00,00,000/- to Rs.1,50,00,000/-. The notices to individual creditors have been issued. The List of Creditors prepared on the 31<sup>st</sup> day of July, 2022 by the company is available at the Registered Office of the Company for inspection on all working days during 11 A.M. to 4 P.M. between Monday to Wednesday.

If any creditor of the company has any objection to the application or the details in the List of Creditors, the same may be sent (alongwith supporting documents) and details about his name and address and the name and address of his Authorised Representative, if any, to the undersigned at address given below within three months of date of this notice.

If no objection is received within the time stated above, entries in the List of Creditors will, in all the proceedings under the above Petition to reduce the share capital of the company, be treated as correct. It may also be noted that a hearing has been fixed for 18<sup>th</sup> day of January, 2023 on which the Tribunal shall hear the Application. In case any creditor intends to attend the hearing he should make a request along with his objections, if any.

A.M. Ilango, Counsel for Petitioner  
Suite No. 103, First Floor, Kaveri Complex, 96/104, Nungambakkam High Road, Nungambakkam, Chennai - 600034

Place: Chennai  
Date: 18.10.2022

**The Singareni Collieries Company Limited**  
(A Government Company)  
Regd. Office: KOTHAGUDEM - 507104, Telangana.

**E-PROCUREMENT TENDER NOTICE**

Tenders have been published for the following Services through e-procurement platform. For details, please visit <https://tender.telangana.gov.in> or - <https://www.sclmines.com>

NIT/Enquiry No. - Description/ Subject / Estimated Contract Value - Last date and time for Submission of bid (s)

CW/RD/e-38/2022-23 - Dismantling of damaged roof slabs and relaying of pre-painted sheets, arresting roof leakages, plastering, flooring and miscellaneous works etc., to houses of BC colony in Phase-II (Package-I) near Kistaram OC, Sathupalli, Kothagudem area, Khammam District, Telangana State - Rs.36,02,951/- 27.10.2022 - 4:30 P.M.

CW/RD/e-39/2022-23 - Dismantling of damaged roof slabs and relaying of pre-painted sheets, arresting roof leakages, plastering, flooring and miscellaneous works etc., to houses of NTR Nagar in Phase-II (Package-II) near JVR OC-II, Sathupalli, Kothagudem area, Khammam District, Telangana State - Rs.33,11,172/- 27.10.2022 - 4:30 P.M.

CW/RD/e-41/2022-23 - Dismantling of damaged roof slabs and relaying of pre-painted sheets, arresting roof leakages, plastering, flooring and miscellaneous works etc., to houses of Vengalrao Nagar in Phase-II (Package-I) near JVR OC-II, Sathupalli, Kothagudem area, Khammam District, Telangana State - Rs.33,54,594/- 27.10.2022 - 4:30 P.M.

CW/RD/e-42/2022-23 - Dismantling of damaged roof slabs and relaying of pre-painted sheets, arresting roof leakages, plastering, flooring and miscellaneous works etc., to houses of BC Colony in Phase-II (Package-II) near JVR OC-II, Sathupalli, Kothagudem area, Khammam District, Telangana State - Rs.31,64,932/- 27.10.2022 - 4:30 P.M.

CW/RD/e-43/2022-23 - Dismantling of damaged roof slabs and relaying of pre-painted sheets, arresting roof leakages, plastering, flooring and miscellaneous works etc., to houses of NTR Nagar in Phase-II (Package-II) near Kistaram OC, Sathupalli, Kothagudem area, Khammam District, Telangana State - Rs.32,59,362/- 27.10.2022 - 4:30 P.M.

CW/RD/e-44/2022-23 - Dismantling of damaged roof slabs and relaying of pre-painted sheets, arresting roof leakages, plastering, flooring and miscellaneous works etc., to houses of SC Colony in Phase-II (Package-I) near Kistaram OC, Sathupalli, Kothagudem area, Khammam District, Telangana State - Rs.29,56,847/- 27.10.2022 - 4:30 P.M.

CW/RD/e-45/2022-23 - Dismantling of damaged roof slabs and relaying of pre-painted sheets, arresting roof leakages, plastering, flooring and miscellaneous works etc., to houses of Vengalrao Nagar in Phase-II (Package-II) near JVR OC-II, Sathupalli, Kothagudem area, Khammam District, Telangana State - Rs.30,01,896/- 27.10.2022 - 4:30 P.M.

CW/RD/e-48/2022-23 - Dismantling of damaged roof slabs and relaying of pre-painted sheets, arresting roof leakages, plastering, flooring and miscellaneous works etc., to houses of SC colony in Phase-II (Package-II) near Kistaram OC, Sathupalli, Kothagudem area, Khammam District, Telangana State - Rs.30,01,692/- 27.10.2022 - 4:30 P.M.

CW/RD/e-49/2022-23 - Dismantling of damaged roof slabs and relaying of pre-painted sheets, arresting roof leakages, plastering, flooring and miscellaneous works etc., to houses of Vengalrao Nagar in Phase-II (Package-III) near JVR OC-II, Sathupalli, Kothagudem area, Khammam District, Telangana State - Rs.30,31,731/- 27.10.2022 - 4:30 P.M.

CW/RD/e-40/2022-23 - Dismantling of damaged roof slabs and relaying of pre-painted sheets, arresting roof leakages, plastering, flooring and miscellaneous works etc., to houses of SC Colony in Phase-II (Package-I) near Kistaram OC, Sathupalli, Kothagudem area, Khammam District, Telangana State - Rs.34,96,349/- 28.10.2022 - 4:30 P.M.

CW/RD/e-46/2022-23 - Dismantling of damaged roof slabs and relaying of pre-painted sheets, arresting roof leakages, plastering, flooring and miscellaneous works etc., to houses of BC Colony in Phase-II (Package-III) near Kistaram OC, Sathupalli, Kothagudem area, Khammam District, Telangana State (\*Invited under earmarked work-SC Community are eligible to participate) - Rs.30,13,113/- 28.10.2022 - 4:30 P.M.

General Manager, Kothagudem Area  
PR/2022-23/CVL/49 RO No: 819-PP/CL-AGENCY/ADVT/1/2022-23

#BSMorningShow

Infocus

Is the worst of inflation behind us?

Q&A

How did Meesho cash in on the festival season?

Market Insight

Should you buy stocks of jewellery retailers this Dhanteras?

5paisa.com presents

Business Standard MORNING SHOW

Mon - Fri | 8am

Get the answers in today's episode

Visit [mybs.in/MorningShow](http://mybs.in/MorningShow) or scan this code to watch.

bsindia bsindia business-standard.com